



SSC - CGL

संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा

STAFF SELECTION COMMISSION

भाग – 3

तार्किक योग्यता एवं विज्ञान



विषय शुची

| अध्याय | पृष्ठ अंक्या |
|------------------------------|--------------|
| 1. अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण | 1 |
| 2. शादृश्यता | 9 |
| 3. वर्गीकरण | 18 |
| 4. श्रृंखला | 23 |
| 5. दिशा और दूरी | 29 |
| 6. एकत असर्व | 38 |
| 7. क्रम व्यवस्थीकरण | 46 |
| 8. बैठक व्यवस्थीकरण | 51 |
| 9. कोडिंग - डिकोडिंग | 58 |
| 10. बेन - आरेख | 66 |
| 11. पहेली परीक्षण | 72 |
| 12. न्याय - निगमन | 78 |
| 13. पासा | 86 |
| 14. शब्दों का तार्किक क्रम | 91 |
| 15. निर्णयन क्षमता | 95 |
| 16. लुप्त पदों का भर्ता | 99 |
| 17. गणितीय अंकियाँ | 106 |

अभाषिक (Non - Verbal)

| | |
|-----------------------|-----|
| 18. आकृतियों की गिनती | 111 |
| 19. श्रृंखला परीक्षण | 118 |
| 20. कागज मोड़ना/काटना | 124 |

| | |
|-------------------|-----|
| 21. शादृश्यता | 129 |
| 22. वर्गीकरण | 132 |
| 23. आकृति निर्माण | 134 |

शासान्य विज्ञान

| | |
|-------------------|---------------|
| 1. भौतिक विज्ञान | (140 – 174) |
| 2. इतिहास विज्ञान | (175 – 209) |
| 3. जीव विज्ञान | (210 – 284) |

अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण (English Alphabet Test)

अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अंग्रेजी अक्षरों या वर्णमाला के एक निश्चित प्रारूप में व्यवस्थित होने पर आधारित है। इस परीक्षण के अन्तर्गत चुने गए अक्षरों द्वारा शब्दों की तयारी, अक्षरों के युग्म और दो अक्षरों के मध्य अक्षर छात करना इत्यादि पर आधारित प्रश्न होते हैं।

अंग्रेजी वर्णमाला से शब्दांशुत कुछ महत्वपूर्ण तथ्य

(1) अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े/छोटे अक्षर

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| बड़े अक्षर | A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
| | J | K | L | M | | | | | | |
| छोटे अक्षर | a | b | c | d | e | f | g | h | i | |
| | j | k | l | m | | | | | | |
| बड़े अक्षर | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | |
| | W | X | Y | Z | | | | | | |
| छोटे अक्षर | n | o | p | q | r | s | t | u | v | |
| | w | x | y | z | | | | | | |

(2) अंग्रेजी वर्णमाला के अंकर और व्यंजन

(i) अंकर - अंग्रेजी वर्णमाला में 5 अंकर होते हैं, जो निम्न हैं -

A, E, I, O, U

(ii) व्यंजन - अंग्रेजी वर्णमाला में 21 व्यंजन होते हैं, जो निम्न हैं -

B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

(3) अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का अंकर व अंकरश

वर्णमाला के प्रथम 13 तथा अंतिम 13 अक्षरों को क्रमशः प्रथम व द्वितीय अंकरश कहते हैं। यह अंकर दो क्रमों पर निर्भर करता है।

(i) शीधे क्रम का प्रथम व द्वितीय अंकरश - इस क्रम में A से M तक अक्षरों को प्रथम अंकरश तथा

N से Z तक के अक्षरों को द्वितीय अंकरश कहते हैं।

बाएं से दाएं

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

(ii) विपरीत क्रम का प्रथम व द्वितीय अंकरश -

इस क्रम में Z से N तक के अक्षरों को प्रथम अंकरश तथा M से A तक के अक्षरों को द्वितीय अंकरश कहते हैं।


बाएं से दाएं

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| Z | Y | X | W | V | U | T | S | R | Q | P | O | N |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |


| | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| M | L | K | J | I | H | G | F | E | D | C | B | A |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

(3) EJOTY व CFIORUX द्वारा अक्षरों का अंकर क्रम द्वात करना

बाएं से



बाएं से



विपरीत अक्षर - अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर का एक विपरीत अक्षर होता है।


| | | |
|---|---|----------------|
| A | Z | $1 + 26 = 27$ |
| B | Y | $2 + 25 = 27$ |
| C | X | $3 + 24 = 27$ |
| D | W | $4 + 23 = 27$ |
| E | V | $5 + 22 = 27$ |
| F | U | $6 + 21 = 27$ |
| G | T | $7 + 20 = 27$ |
| H | S | $8 + 19 = 27$ |
| I | R | $9 + 18 = 27$ |
| J | Q | $10 + 17 = 27$ |
| K | P | $11 + 16 = 27$ |
| L | O | $12 + 15 = 27$ |
| M | N | $13 + 14 = 27$ |

अंग्रेजी वर्णमाला के जिस अक्षर का विपरीत अक्षर छात कठन हो, तो उस अक्षर की संगत संख्या को 27 में ट्रैटा देते हैं। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है, वही विपरीत अक्षर की संगत संख्या होती है।

झक्कारों के बाएँ तथा दाएँ झोर का झक्कार डात करना

- जिस और हमारा दायां होता है, उसी और इक्करों का दायां होता है और जिस और हमारा बायां होता है, उसी और इक्करों का बायां होता है।

३८ -




प्रश्न के प्रकार

प्रकार = 1 वर्ण परीक्षण पर आधारित प्रश्न

- (1) श्रीदेवी कम्म में अक्षरों का स्थान -

उदाहरण - 1 वर्णमाला A B C D E F G H I J K
L M N O P Q R S T U V W X Y Z में बाटं ऐ
शीलहवें अक्षर के दाहिने तो छठा अक्षर कौन- का है
?

हल - प्रथनानुसार



अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16 वाँ अक्षर = P 16 वाँ

वैकल्पिक विधि

अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से m वें अक्षर के दाएं n वां अक्षर = बाएं से $(m + n)$ वां अक्षर
 $m = 16$ तथा $n = 6$

ਬਾਣੀ (16 + 6) ਵਾਂ ਛਕਾਰ = ਬਾਣੀ 22 ਵਾਂ

हल - अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में आपके दाएं हो गए m वें अक्षर के बाएं हो गए n वां अक्षर = दाएं हो गए $(m + n)$ वां अक्षर

यहाँ, $m = 3$ तथा $n = 13$

$$= \text{दाएं } \times (3 + 13) \text{ वां अंकार} = \text{दाएं } \times 16 \text{ वां अंकार} = P \text{ Ans.}$$

- (3) प्रथम अर्द्धांश विपरीत क्रम में छक्करों का स्थान
इसके अन्तर्गत अंग्रेजी वर्णमाला के आरंभ के आधी
छक्करों द्वारा तात्पुरता A से M तक के छक्करों को विपरीत क्रम

में तथा शेष छाई अक्षरों को उत्तीर्णों का त्वयों लिखा जाता है।

उदाहरण - 3

यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्द्धश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो आपके दाँड़ छोर से 10 वें अक्षर के बाँड़ छोर 7 वां अक्षर कौन-सा होगा?

- | | |
|-------|-------|
| (A) C | (B) E |
| (C) D | (D) J |

Ans. (C)

हल - प्रथमानुसार,

| | | | | | | | | |
|----|----|----|----|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
| M | L | K | J | I | H | G | F | E |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----|----|----|--------|----|----|----|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| D | C | B | A | N | O | P | Q | |
| के बाँड़ छोर | | | | | | | | |
| 7 वां | | | | | 10 वां | | | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| दाँड़ छोर से | | | | | | | | |

दाँड़ छोर से 10 वां अक्षर Q है तथा अक्षर Q के बाँड़ छोर, 7 वां अक्षर D है। अतः अभीष्ट अक्षर = D

(4) एक अक्षर खण्डों के विपरीत क्रम में अक्षरों का इथान

उदाहरण - 4

यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 4 अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, पुनः 5 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में, पुनः 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में, पुनः 5 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में, पुनः 6 अक्षरों को भी विपरीत क्रम में तथा शेष अक्षरों को भी विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दाँड़ से 8 वें अक्षर के बाएं 7 वां अक्षर कौन-सा होगा?

- | | |
|-------|-------|
| (A) O | (B) L |
| (C) N | (D) M |

Ans. (D)

प्रथमानुसार,

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 15 | 14 |
| D | C | B | A | I | H | G | F | E | O | N |

| | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|-------|----|----|
| 13 | 12 | 11 | 10 | 22 | 21 | 20 | 19 |
| M | L | K | J | V | U | T | S |
| के बाएं | | | | | | | |
| 7 वां | | | | | 8 वां | | |

| | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|-----|----|--|
| 18 | 17 | 16 | 26 | 25 | 24 | 23 | |
| R | Q | P | Z | Y | X | W | |
| दाएं से | | | | | | | |
| वां | | | | | वां | | |

दाएं से 8 वां अक्षर S है तथा S अक्षर के बाँड़ छोर 7 वां अक्षर M है। अतः अभीष्ट अक्षर = M

(5) दो अक्षरों के मध्य में अक्षरों की संख्या -

उदाहरण - 5

अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8 वें तथा दाएं से 7 वें अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं?

- | | |
|--------|--------|
| (A) 8 | (B) 9 |
| (C) 10 | (D) 11 |

Ans. (D)

हल - प्रथमानुसार

| | | | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | B | C | D | E | F | G | H |
| बाएं से 8 वां | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S |

| | | | | | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 अक्षर | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| T | U | V | W | X | Y | Z |

| | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|--|
| दाएं से | | | | | | |
| 7 वां | | | | | | |

अतः बाएं से 8 वां अक्षर H हैं तथा दाएं से 7 वां अक्षर T हैं और इन दोनों के मध्य में 11 अक्षर हैं।


(6) वर्णमानुसार व्यवस्थित करने पर अक्षरों की समान स्थिति -

उदाहरण - यदि शब्द CADMP में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए, तो किन अक्षरों के लिये अपरिवर्तित रहेंगे।

- | | |
|---------|---------|
| (A) एक | (B) दो |
| (C) तीन | (D) चार |

Ans. (C)

हल -



अतः इस प्रकार के अक्षर D, M, तथा P हैं।

प्रकार - 2 अक्षर-युग्म पर आधारित प्रश्न

यदि किसी शब्द के दो अक्षरों के मध्य उतने ही अक्षर विद्यमान हो, तिने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के

| | | | | | | | | |
|---|----|---|---|----|----|---|----|----|
| 5 | 24 | 5 | 3 | 21 | 20 | 9 | 15 | 14 |
| E | X | E | C | U | T | I | O | N |

मध्य होते हैं, तो इस प्रकार उन दोनों अक्षरों में बनने वाले जोड़े को एक अक्षर-युग्म कहते हैं।

उदाहरण - 7

दिए गए शब्द EXECUTION में अक्षरों के ऐसे किन जोड़े हैं, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं, तिने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं?

- | | |
|-------|---------------|
| (A) 1 | (B) 2 |
| (C) 3 | (D) 3 से अधिक |

Ans. (D)

हल - प्रश्नानुसार,

अतः अभीष्ट अक्षर-युग्म UX, TU, EI तथा NO अर्थात् 4 हैं।

प्रकार - 3 शब्द निर्माण तथा अक्षर व्यवस्थिकरण

(i) अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों को बदलना

उदाहरण - 8 यदि COMMUNICATIONS में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवे और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परिवर्तन बदल दिया जाए, तो अपने दाएं से गणना करने पर 10 वां अक्षर कौन-सा होगा?

- | | |
|-------|-------|
| (A) T | (B) N |
| (C) U | (D) A |

Ans. (B)

हल - दिए गए शब्द COMMUNICATIONS अक्षरों के लिये परिवर्तन करने पर बना शब्द



दाएं से 10 वां

अतः अभीष्ट अक्षर = N

(ii) अर्थपूर्ण शब्द के युग्म हुए/क्रमानुसार अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाना


उदाहरण - 9

यदि शब्द SHARE HOLDING के पहले, तीसरे, पांचवें और छाठवें अक्षरों से कोई एक शार्थक शब्द बन शकता है, तो उसका दूसरा अक्षर क्या होगा? यदि ऐसा कोई शब्द बनाना संभव न हो, तो उत्तर 'X' दिजिए और यदि एक से अधिक शब्द बनने संभव हो, तो उत्तर 'Y' दिजिए।

- | | |
|-------|-------|
| (A) L | (B) E |
| (C) S | (D) X |
| | (E) y |

Ans. (E)

हल - प्रश्नानुसार दिया गया शब्द,



नया शब्द, SEAL = SALE, SEAL = 2 अर्थपूर्ण शब्द
इसीसे बनने वाले को शार्थक शब्द SALE और SEAL हैं,
अतः y विकल्प उही होगा ।

उदाहरण – 10 DIALOGUE शब्द के वर्णों से चार या छह विकल्प वाले कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं

Ans. (C)

हल - DIALOGUE के वर्णों से चार या अधिक वर्ण वाले 9 शब्द बनाए जा सकते हैं।

३६८

DIAL, GOAL, GOAD, GILD, GLUE, GUILD,
LOUD, GUIDE, GUILE আছি।

(iii) दिए गए अक्षरों को व्यवस्थित कर अर्थपूर्ण शब्द बनाना

उदाहरण - 11

गीये दिए गए विभिन्न अक्षरों की कांख्याओं को
इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए, जिससे कि एक
अर्थपूर्ण शब्द बन जाए ।

| G | T | A | E | N | M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

- (A) 1, 3, 2, 6, 4, 5
(B) 6, 3, 5, 1, 4, 2
(C) 1, 3, 2, 5, 4, 6
(D) 6, 3, 1, 5, 4, 2

Ans. (D)

हल - दिए गए छक्करों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर, MAGNET शब्द बनता है, जो कि

6,3,1,5,4,2 क्रम में अंकों को व्यवस्थित करने पर प्राप्त होता है।

प्रकार - 4 छक्कार समूहों पर आधारित प्रश्न

इनके अन्तर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में तीन या चार अक्षरों के कुछ शब्द दिए जाते हैं। प्रश्न में दिए गए निर्देशों के अनुसार इन अक्षर शब्दों को व्यवस्थित कर उत्तर द्वारा होता है।

उदाहरण - 12

यदि दिए गए कभी शब्दों में उनसे पहले अक्षर S लगा दिया जाए, तो नई व्यवस्था में कितने शब्दों से अंग्रेजी के अर्थपूर्ण शब्द बनेंगे ?

- (A) केवल SHE
 - (B) ANT तथा JUG
 - (C) केवल OLD
 - (D) TIN तथा JUG
 - (E) केवल TIN

Ans. (C)

हल - गई व्यवस्था में शब्द निम्न हैं।

S SHE SOLD SANT STIN SIUG

अतः दिए गए शब्दों में अक्षर S को उनके पहले लगाने पर केवल एक अर्थपूर्ण शब्द SOLD बनता है।

प्रकार - ५ वियस विंदेश पर आधारित -


इस प्रकार के प्रश्नों में छंगेड़ी अक्षरों से शंबंधित एक नियम दिया गया होता है। इन नियमों का पालन करते हुए यह देखना होता है कि कौनसे विकल्प में दिया गया अक्षर शमूँ का पालन कर रहा है।

उदाहरण - 13 दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है।

- (A) EGIKM (B) MOQ TU
(C) MPQ TU (D) MNOPQ

Ans. (A)

५८




अतः EGIKM अक्षर-युग्म में प्रत्येक दो अक्षरों के बीच में एक अक्षर छूटा हुआ है।

उदाहरण - 14 अंग्रेजी अक्षर, वर्णमाला के विपरीत क्रम में हैं।

- (A) ABCDE (B) ZYXWV
 (C) KLMNO (D) PQRST

Ans. (B)

हल -



अतः Z Y X W V अक्षर-युग्म, अक्षर वर्णमाला के विपरीत क्रम में है।

उदाहरण हल शहित

(1) अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर J और T के ठीक बीच में कौन-सा अक्षर होगा ?

- (A) N (B) O
 (C) P (D) Q
 (E) कोई अक्षर नहीं

Ans. (B)

हल -

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T |

J और T के ठीक मध्य में O अक्षर है।


(2) अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 20वें तथा दाईं ओर से 21वें अक्षर के ठीक बीच में कौन-सा अक्षर होगा ?

- (A) L (B) M
 (C) N (D) O

(E) कोई अक्षर नहीं

Ans. (B)

हल -



बाएं से 20 वां अक्षर T तथा दाएं से 21 वां अक्षर F हैं और इन दोनों के ठीक बीच में M अक्षर है।

(3) यदि BEAUTIFUL शब्द के अक्षरों को पुनर्व्यवस्था करते हुए वर्णमाला के अनुसार लिखा जाए तो, वैसे कितने अक्षर होंगे जिनका स्थान क्रम अपरिवर्तित रहेगा ?

- (A) एक (B) तीन
 (C) दो (D) तीन से अधिक

Ans. (A)

हल - प्रश्नानुसार,

मूल शब्द BEAUTIFUL
 वर्णमाला क्रमानुसार A B E F I L T U U

अतः केवल एक अक्षर का स्थान क्रम अपरिवर्तित रहता है।

(4) यदि शब्द DOMAINS के प्रत्येक स्वर के अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके आगे आगे वाले वर्ण से बदल दिया जाए तथा प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसके पहले वाले वर्ण से बदल दिया जाए तथा इसके पश्चात् सभी वर्णों को वर्णमाला क्रमानुसार (बाएं से दाएं) लगाया जाए, तो इस प्रकार बने गए क्रम में दाएं से तीसरे स्थान पर निम्न में से कौन-सा वर्ण होगा?

- (A) J (B) C
 (C) P (D) M (E) B

Ans. (D)


हल -

दिया गया शब्द → D O M A I N S

स्वर को बदलने पर → D P M B J N S

व्यंजन को बदलने पर → C P L B J M R

अब, इन वर्णों की वर्णमाला क्रमानुसार (बाएं से दाएं लगाने पर)



(5) शब्द HTUTR के प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। बगाएं गए शब्द का पांचवां अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं, तो आपका उत्तर गलत होगा और यदि ऐसा कोई शब्द नहीं बनता है तो आपका उत्तर शही होगा।

- | | |
|-------|-------|
| (A) H | (B) R |
| (C) U | (D) X |
| (E) Y | |

Ans. (A)

हल - प्रथमानुसार, अक्षर-समूह HTUTR से बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द = TRUTH


अतः TRUTH में बाएं से पांचवां अक्षर = H

(6) शब्द WASHINGTON में वह कौन-सा अक्षर है, जो गिनते पर वही कांख्या है जो वर्णमाला में है?

- | | |
|-------|-------|
| (A) N | (B) T |
| (C) O | (D) G |

Ans. (D)

हल - प्रथमानुसार



अतः अशीष्ट अक्षर = G

मिस्त्र प्रथम में एक शब्द तथा 32 के बाद चार विकल्प दिए गए हैं। चार विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प ऐसा है, जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से बनाया जा सकता है। उस विकल्प को चुनिए।

(7) VENTURESOME

- (A) ROSTRUM
- (B) TRAVERSER
- (C) SERMON
- (D) SEVENTEEN

Ans. (C)

हल - दिए गए शब्द के अक्षरों से SERMON शब्द बनाया जा सकता है।

(8) अक्षरों के एक समूह में प्रत्येक को एक कांख्या नियत की गई है। उन्हें एक कार्यक्रम में १८ कर, दिए गए उत्तरों के अक्षरों में से शही क्रम का चयन कीजिए

Y M L O S B C I

1 2 3 4 5 6 7 8

- | | |
|--------------|--------------|
| (A) 47685321 | (B) 51264387 |
| (C) 21645387 | (D) 56241387 |

Ans. (B)

हल - YM LOS BC I के अक्षरों को व्यवस्थित करने पर शब्द SYMBOLIC बनेगा। अतः शही क्रम 5 1 2 6 4 3 8 7 है।

(9) नए शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के शब्दों के बाद में कौन-सा अक्षर लगाया जा सकता है ?

STAG, ENGAG, DAMAG, SEWAG

- | | |
|-------|-------|
| (A) A | (B) S |
| (C) E | (D) P |

Ans. (C)

हल - यदि शब्दों STAG, ENGAM, DAMAG, SEWAG के तुरन्त बाद अक्षर E लगा दिया जाए, तो पूरी तरह से नए अर्थपूर्ण शब्द STAGE, ENGAGE, DAMAGE, SEWAGE बन जाएंगे।

(10) दो आठव्वन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की कांख्या दो के मुण्डों से बढ़ती है।

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) ADIPY | (B) JMRYG |
| (C) EHNTC | (D) HKBWF |

Ans. (A)

हल - श्रृंखला A में दिए गए नियम का पालन हो रहा है।

| | | | | |
|-----|---------|-----------|-----------------|----|
| 1 | 4 | 9 | 16 | 25 |
| A | D | I | P | Y |
| B,C | E,F,G,H | J,K,M,N,O | Q,R,S,T,U,V,W,X | |
| +3 | +5 | +7 | +9 | |

अतः अभीष्ट श्रृंखला = ADIPY



शादृश्यता (ANALOGY)

किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या के किसी अन्य वस्तु, शब्द, अक्षर, संख्या से गुण, रूप, आकार, प्रकार, लक्षण आदि में किसी भी प्रकार से सम्बन्ध या समानता को शादृश्यता या समरूपता कहा जाता है।

शादृश्यता के अन्तर्गत समान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं।

प्रकार 1 - हिन्दी शब्द शादृश्यता :-

इसके अन्तर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में दिए गए हिन्दी शब्दों के सम्बन्ध पर विचार करते हुए दिए गए उत्तर विकल्पों में से ऐसे शब्द को ज्ञात करना होता है, जिसका सम्बन्ध दिए गए शब्दों या तीसरे शब्द के साथ स्थापित हो जाके।

(i) समरूप शब्द ज्ञात करना :- इसके अन्तर्गत पूछे गए प्रश्नों में दिए गए दो शब्दों के सम्बन्ध पर विचार करते हुए उत्तर विकल्पों में से ऐसे शब्द को ज्ञात करना होता है, जिसका सम्बन्ध दिए गए शब्दों या तीसरे शब्द के साथ स्थापित होता है।

उदाहरण - 1 :- दिए गए विकल्पों में से सम्बन्धित शब्द को चुनिए।

गढ़ी : धारा : महाशागर : ?

- | | |
|------------|------------|
| (A) प्रवाह | (B) तालाब |
| (C) बाँध | (D) समुद्र |

Ans - (A) प्रवाह

हल :- जिस प्रकार गढ़ी के पानी से धारा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार महाशागर के पानी से प्रवाह उत्पन्न होता है।

उदाहरण - 2 :- जिस प्रकार कोलम्बो, श्रीलंका से सम्बन्धित है, उसी प्रकार काठमाण्डू किससे सम्बन्धित है?

- | | |
|------------|-----------|
| (A) तिब्बत | (B) भारत |
| (C) भूटान | (D) नेपाल |

Ans. (D) नेपाल

हल :- जिस प्रकार कोलम्बो, श्रीलंका की राजधानी है, उसी प्रकार, काठमाण्डू नेपाल की राजधानी है।

(ii) समरूप युग्म ज्ञात करना :- इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्नों में दो शब्द दिए होते हैं, जो कि आपस में किसी प्रकार से सम्बन्धित होते हैं। ठीक इसी प्रकार का सम्बन्ध नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी एक विकल्प में भी होता है।

उदाहरण - 3 :- दिए गए विकल्पों में से सम्बन्धित शब्द - युग्म को चुनिए।

उद्देशिका : संविधान :: ? : ?

- | |
|---------------------------|
| (A) शब्द : शब्दकोश |
| (B) विजय-वर्षतु : पत्रिका |
| (C) अपष्टीकरण : कविता |
| (D) प्रस्तावना : पुस्तक |

Ans. (D)

हल :- जिस प्रकार, संविधान की उद्देशिका होती है, ठीक उसी प्रकार पुस्तक की प्रस्तावना होती है।

(iii) शब्दों के समरूप शब्द तथा समरूप शब्दों के लिए विशेष वर्ग चुनना

इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्नों में कुछ शब्द दिए होते हैं। आपको दिए गए विकल्पों में से ऐसा शब्द चुनना होता है जो ठीक वैश्वा ही हो और उसी की आरम्भ में दिए गए शब्द है और वह शब्द ज्ञात करना होता है जो प्रश्न में दिए गए शब्दों के बीच विशेषता दर्शाता है।

उदाहरण - 4 :- कौन वैश्वा ही है और - भूकम्प, चक्रवात, ड्वालामुखी विस्फोट

- | | |
|-------------------|--------------------|
| (A) वैश्विक ऊज्जा | (B) बाढ़ |
| (C) दुर्घटनाएँ | (D) परमाणु विस्फोट |

Ans. (B) बाढ़

हल :- जिस प्रकार भूकम्प, चक्रवात एवं ड्वालामुखी विस्फोट प्राकृतिक आपदाएँ हैं। उसी प्रकार बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है।

उदाहरण - 5 :- नीचे तीन शब्द दिए हैं, जिनमें कुछ शामान्य विशेषता है, उसी विकल्प को चुनिए।

शाँप, छिपकली, मगरमच्छ

- | | |
|------------|-------------|
| (A) लरीसूप | (B) खतनधारी |
| (C) लवधारी | (D) हिरण |

Ans. (A)

हल:- शाँप, छिपकली और मगरमच्छ तीनों लरीसूप हैं।

उदाहरण - 6 :- वह विकल्प ज्ञात कीजिए, जिसमें वही अम्बन्ध हो, जो नीचे दिए गए तीनों शब्दों में है।

शाजा, शगी, महल

- | |
|----------------------------|
| (A) कबूतर, चिड़िया, औजधालय |
| (B) बकरा, बकरी, किला |
| (C) भौंथ, मकड़ी, जल |
| (D) शेर, शेरनी, गुफा |

Ans. (D)

हल :- जिस प्रकार, शाजा - शगी दोनों साथ में महल में निवास करते हैं, उसी प्रकार शेर और शेरनी दोनों साथ में गुफा में निवास करते हैं।

(iv) दोहरी समरूपता :-

इसके अन्तर्गत प्रश्न में यिन्ह (::) के बाईं और एवं दाईं ओर दो - दो शब्द दिए गए होते हैं। दोनों ओर के शब्दों में एक-एक शब्द लुप्त रहता है।

लुप्त शब्द को नीचे दिए विकल्पों में से ज्ञात करना होता है।

उदाहरण - 7 :- निम्न प्रश्न में लुप्त शब्द को नीचे दिए गए विकल्प में से ज्ञात करें।

A : भद्रा :: शान्ति : B

- | |
|-----------------------------|
| (A) A : शांति, B-युद्ध |
| (B) A - मित्रता, B - शोर |
| (C) A - ईमानदारी, B - शनिवा |
| (D) A & कंख्या, B - हडताल |

Ans. (A)

हल:- जिस प्रकार, शुन्दर और भद्रा एक दुसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं। उसी प्रकार, शान्ति और युद्ध भी एक दुसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं।

प्रकार - 2 अंग्रेजी अक्षर शब्दसंख्या :-

इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्न, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों या अक्षर शब्दों पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए प्रथम दो अक्षर - शब्दों के सम्बन्ध को ज्ञात करके इसी आधार पर तीसरे अक्षर - शब्द के लिए उसी उत्तर को विकल्पों में से ज्ञात करना होता है।

अंग्रेजी अक्षर तथा अंगत शब्दसंख्या :-

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| अंग्रेजी अक्षर | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
| अंगत शब्दसंख्या | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| अंग्रेजी अक्षर | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
| अंगत शब्दसंख्या | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

अंग्रेजी अक्षर के द्वारा द्वितीय अंगत अक्षर :-

द्वारा अक्षर - A, E, I, O, U

द्वितीय अक्षर - B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z

उदाहरण - 8

CHAIR : RIAHC :: TABLE : ?

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) BLAET | (B) ETABL |
| (C) LETAB | (D) ELBAT |

Ans. (D)

हल:- जिस प्रकार

CHAIR → RIAHC

उसी प्रकार


TABLE → ELBAT

उदाहरण - 9

HORSE : SERHO :: CURSE : ?

- | | |
|-----------|-----------|
| (A) RCUES | (B) SECRU |
| (C) SERCU | (D) ERCUS |
- Ans. (C)

हल :-




उदाहरण - 10

EGH : IJK :: NPQ : ?

- | | |
|---------|---------|
| (A) PRS | (B) RSU |
| (C) RTU | (D) RST |
- Ans. (D)

हल :-



प्रकार - 3 अंग्रेजी शब्द शादृश्यता :-

इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्नों में अंग्रेजी शब्दों पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों में दिए गए प्रथम के शब्दों के शब्दान्धों को ज्ञात करके इसी आधार पर तीसरे शब्द के लिए उत्तर विकल्पों में से ज्ञात करते हैं।

(i) शम्बन्धित शब्द ज्ञात करना

उदाहरण - 11 :- निम्न प्रश्न में उस विकल्प का चयन करें, जो तीसरे शब्द से ठीक उत्तीर्ण तरह शम्बन्धित है जिस प्रकार दुक्षिण पद पहले पद से शम्बन्धित है।

Shallow : Profound :: Synonym : ?

- | | |
|-------------|-------------|
| (A) Context | (B) Antonym |
| (C) Meaning | (D) Content |
- Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार Shallow का विपरीतार्थक शब्द Profound होता है, उत्ती प्रकार, Synonym का विपरीतार्थक शब्द Antonym है।

(ii) शब्द युग्म के शम्बन्ध शब्द युग्म ज्ञात करना :-

उदाहरण - 12 :- निम्नलिखित में से शब्दों का कौन-सा युग्म वैश्वा ही शम्बन्ध दर्शाता है। जिस प्रकार का शम्बन्ध Fan : Heat के बीच है ?

- | |
|-------------------|
| (A) Water : Drink |
| (B) Food : Hunger |
| (C) Light : Night |
| (D) Air : Breath |

Ans. (B)

हल :- जब गर्मी (Heat) होती है, तब पंखा (Fan) चलाया जाता है, उत्ती प्रकार भूख (Hunger) लगने पर भोजन (Food) किया जाता है।

प्रकार - 4 - शंख्या शादृश्यता :-

इसके अन्तर्गत आगे वाले प्रश्नों में शंख्याओं के क्रम, शंख्याओं के वर्गों के क्रम, अभाज्य शंख्याओं के क्रम आदि पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, दुसरे शब्दों में

इसके छन्तरागत पुष्टे जाने वाले प्रश्न गणितीय संक्रियाओं पर आधारित होते हैं।

उदाहरण - 13 :- इस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार सम्बन्धित है जिस प्रकार दूसरा पद, पहले पद से सम्बन्धित है।

$$23 : 69 : 27 : ?$$

हल :- डिस्ट्रिक्ट प्रकार $23 \times 3 = 69$

उसी प्रकार $27 \times 3 = 81$

उदाहरण - 14 दिए गए विकल्पों में से सम्बन्धित संख्या को चुनिए।

$$8 : 32 :: 6 : ?$$

- (A) 31 (B) 22
(C) 18 (D) 21

Ans. (C)

हल :- डिश प्रकार = $8^2 = 64$

$$64 \div 2 = 32$$

$$\text{तीसी प्रकार} = 6^2 = 36$$


$$36 \div 2 = 18$$

उदाहरण - 15 :- दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को छात किजिए जो $10 : 13 :: 16$ के अनुपात है।

- (A) 8 : 10 : 15 (B) 13 : 16 : 19
(C) 23 : 29 : 23 (D) 10 : 16 : 23
Ans. (B)


हल :- जिस प्रकार

10 : 13 :: 16



३२ी प्रकार

$$13 + 16 + 19$$



उदाहरण हल सहित

हल :- जिस प्रकार, टैगिंग लेना का एक भाग होता है, उसी प्रकार, खिलाड़ी टीम का एक भाग होता है।

- (2) एकत्र जैसे शिया के क्षम्बन्धित हैं वैसे ही तेल किससे क्षम्बन्धित हैं ?

(A) कार
(B) पाइपलाइन
(C) इंजन
(D) पेट्रोल

हल :- जिस प्रकार, एकत्र शिरो में बहता है, उसी प्रकार तेल, पाइपलाइन में बहता है।

हल :- डिस्ट्रिक्ट प्रकार लाल रंग का प्रयोग वाहन को शोकने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार हरे रंग का प्रयोग वाहन के चालाने या चालने के स्थिर किया जाता है।

- (4) दिवां का रात्रि से वही शम्बन्ध है जो गोदूलिवेला
कासे है ।

हल :- जिस प्रकार दिवस का विलोम शत्रि होता है, उसी प्रकार, गोधूलिवेला का विलोम ऊषाकाल होता है।

(5) जिस प्रकार महाशामर का सम्बन्ध तालाब से है, उसी प्रकार किलोमीटर का सम्बन्ध किससे है ?

- | | |
|--------------|--------------|
| (A) मीटर | (B) मिलीमीटर |
| (C) किलोमीटर | (D) डेशीमीटर |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार जल का शब्द से बड़ा संचित श्वेत महाशामर है, जबकि शब्द से छोटा श्वेत तालाब है, उसी प्रकार किलोमीटर का शब्द से छोटा श्वेत मिलीमीटर होगा निम्नलिखित प्रश्नों में उसी विकल्प का चयन कीजिए।

(6) चौड़ा : संकीर्ण :: पैना : ?

- | | |
|------------|-------------|
| (A) धारहीन | (B) गुकीला |
| (C) चाकू | (D) झुरद्दा |

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार, चौड़ा का विपरीत संकीर्ण है उसी प्रकार, पैना का विपरीत धारहीन है।

(7) प्रतिरोध : श्लोम :: विद्युतधारा : ?

- | | |
|--------------|-------------|
| (A) कैरोड़े | (B) एम्पियर |
| (C) ट्रेडिंग | (D) वोल्ट |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार प्रतिरोध का मात्रक श्लोम है, ठीक उसी प्रकार, विद्युतधारा का मात्रक एम्पियर है।

(8) लखनऊ : उत्तर प्रदेश :: रौची : ?

- | | |
|----------------|---------------|
| (A) झारखण्ड | (B) झोड़िथा |
| (C) उत्तराखण्ड | (D) छत्तीसगढ़ |

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार, लखनऊ, उत्तरप्रदेश राज्य की राजधानी है, उसी प्रकार, रौची, झारखण्ड राज्य की राजधानी है।

(9) बर्फ : ठण्डक :: पृथ्वी : ?

- | | |
|-------------------|------------|
| (A) वजन | (B) जंगल |
| (C) गुरुत्वाकर्षण | (D) अमुद्र |

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार, बर्फ में ठण्डक होती है, उसी प्रकार पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है।

(10) देशमकीट : देशम :: नाग : ?

- | | |
|------------|---------|
| (A) विषहर | (B) विष |
| (C) मृत्यु | (D) मरन |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार, देशमकीट दे देशम प्राप्त किया जाता है, उसी प्रकार, नाग दे विष प्राप्त किया जाता है

(11) शरीर : कंकाल :: ? व्याकरण

- | | |
|--------------|------------|
| (A) भाषा | (B) ऋर्थ |
| (C) विद्यालय | (D) शिक्षक |

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार, शरीर का मुख्य आधार कंकाल है, उसी प्रकार भाषा का मुख्य आधार व्याकरण है।

(12) मैराथन : ढौड़ :: शीतनिद्रा : ?

- | | |
|-----------|------------|
| (A) लंकी | (B) भालु |
| (C) त्वचा | (D) निद्रा |

Ans. (D)

हल :- जिस प्रकार, मैराथन एक प्रकार की ढौड़ है, उसी प्रकार, शीतनिद्रा एक प्रकार की निद्रा है।

(13) पुरुष : जीवनी :: राष्ट्र : ?

- | | |
|-----------|------------|
| (A) भूगोल | (B) इतिहास |
| (C) नेता | (D) जनता |

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार, किसी पुरुष के जीवन की कहानी, जीवनी होती है, उसी प्रकार, किसी राष्ट्र की कहानी, इतिहास होती है।

निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से वह युग्म चुनें जो पहले युग्म के शब्दों की भाँति आपस में सम्बन्धित हो ।

(14) तीर : धनुष :: ?

- (A) फुटबॉल : हाथ
- (B) टलाद : चाकू
- (C) गोली : बंदुक
- (D) धुँझँ : पानी

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार तीर चलाने के लिए धनुष का प्रयोग किया जाता है उसी प्रकार गोली चलाने के लिए बंदुक का प्रयोग किया जाता है ।

(15) बुकर पुरस्कार : शाहिंय :: ?

- (A) ग्रेमी पुरस्कार : पत्रकारिता
- (B) पुलितजर पुरस्कार : पत्रकारिता
- (C) ग्लोबल पुरस्कार : फिल्म
- (D) ऑरकर पुरस्कार

Ans. (B)

हल :- जिस प्रकार बुकर पुरस्कार शाहिंय से सम्बन्धित है, उसी प्रकार, पुलितजर पुरस्कार, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है ।

(16) जिस प्रकार ERID सम्बन्धित है DIRE से, उसी प्रकार RIPE सम्बन्धित हैसे ।

- (A) EPIR (B) REPI
- (C) EPRI (D) PEIR

Ans. (A)

हल :- अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा गया है

$$\text{RIPE} = \text{EPIR}$$


(17) जिस प्रकार DRIVE का सम्बन्ध ESJWF से है, उसी प्रकार FIGHT का सम्बन्ध किससे है ?

- (A) EHFGS (B) GJHIU
- (C) GJFHU (D) EJFGU


Ans. (B)

हल :-

जिस प्रकार



उसी प्रकार




(18) जिस प्रकार WT का सम्बन्ध QN से है, उसी प्रकार FC का सम्बन्ध किससे है ?

- (A) KH (B) MJ
- (C) GJ (D) ZW

Ans. (D)

हल :-

जिस प्रकार



उसी प्रकार



(19) ROUGH का UHROG से सम्बन्ध है और PLUCK का UKPLC से सम्बन्ध है तो ANCHOR का सम्बन्धसे है ।

(A) NHRACO

(B) HORANC

(C) ACONHR

(D) निर्धारित नहीं किया जा सकता

Ans. (D)

हल :- निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें
छः अक्षर हैं।

(20) EK : MS :: AG : ?

(A) IM


(B) IJ

(C) IO

(D) JP

Ans. (C)

हल :-



(21) NEUROTIC:TICRONEU::PSYCHOTIC:?

(A) TICCOHPSY


(B) TICOCHPSY

(C) TICCHOPSY


(D) TICHCPSY

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार



उसी प्रकार



(22) AZBY : CXDW :: EVFU : ?

(A) GHTS


(B) TGBH

(C) GTHS


(D) GSTH

Ans. (C)

हल :- जिस प्रकार



उसी प्रकार



(23) BOTTLE : CQWXQK :: FILLED : ?

(A) GKOPJJ

(B) GKOPJK

(C) GKPOJJ

(D) GHOPJJ

Ans. (A)

हल :- जिस प्रकार